



रामाज्ञा स्कूल, नॉएडा  
कक्षा-सात / विषय-हिंदी / २०१७-१८  
ओलिंपियाड अभ्यास पत्र

प्र० अवतरण के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊँचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हँसी-खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुँचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तब दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आँगन में घुस आइ। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नखशिख से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के सायबान से टकराया। वहाँ टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं तब उसने केवल एक काम किया। अपने मुँह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोष है। इसी समय पं. बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आँगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आँगन में घुस आए थे, सबको बाहर निकाल दिया। फिर आँगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा- “आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है। अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए।” साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले- “आप इस शख्स को जानते हैं?” “बिलकुल नहीं। और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे।” “मेरी समझ में ‘ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक’ (यानी, यह खतरनाक पागल है)।” “नहीं, मेरी समझ में ‘ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल’ (नहीं, यह खतरनाक मुजरिम है)।” परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आँखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आँखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है।

1.) लोटा कहाँ से गिरा था ?

(क) छत से (ख) पहली मंजिल से (ग) दूसरी मंजिल से (घ) तीसरी मंजिल से

2.) लाला झाऊलाल के आँगन में कौन लोग आ गए थे ?

(क) गली के लोग (ख) अंग्रेज़ (ग) बच्चे (घ) कोई नहीं

3.) पानी का लोटा किस के ऊपर गिरा था ? और उसे कहाँ चोट आई थी ?

(क) अंग्रेज़, पैर (ख) बच्चे, सिर पर (ग) औरत, बाजू (घ) इनमें से कोई नहीं

4.) जब अंग्रेज को पता चला कि लोटे के मालिक लाला झाऊलाल हैं, तो अंग्रेज ने क्या किया ?

(क) चुप रहा (ख) हंसने लगा (ग) गालियाँ देने लगा (घ) रोने लगा

5.) लाला झाऊलाल को आज ही क्या मालूम हुआ ?

(क) अंग्रेज़ अच्छे हैं (ख) अंग्रेजी में गालियों का प्रकाण्ड कोष है (ग) लोगों में दया है

(घ) कुछ नहीं

6.) बिलवासी मिश्र ने आते ही क्या काम किया ?

(क) लाला को डांटा (ख) लोगों को बाहर निकाल दिया (ग) अंग्रेज़ को बैठाया

(घ) कुछ नहीं

7.) बिलवासी मिश्र ने अंग्रेज से क्या कहा ?

(क) आप इसे जानते हैं (ख) चुप रहने के लिए (ग) जाने के लिए

(घ) लड़ने के लिए

8.) "गुरु" का अनेकार्थी शब्द नहीं है –

(क) चालाक (ख) ज्ञानी (ग) बड़ा (घ) शिक्षक

9.) "बाल" का अनेकार्थी शब्द है –

(क) बाला (ख) बाली (ग) केश (घ) गेंद

10.) हमें कानून के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए

(क) गैर-कानूनी (ख) बेकानून (ग) बिना कानूनी (घ) कानूनन

11.) यह संसार नष्ट होने वाला है

(क) नास्तिक (ख) नश्वर (ग) आस्तिक (घ) अनिश्चित

12.) जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, उसे कहते हैं-

(क) शब्द (ख) विशेषण (ग) विशेष्य (घ) वाक्य

13.) विशेषण के उदाहरण हैं –

(क) रमेश, महेश (ख) पशु, पक्षी (ग) हम, तुम (घ) क्रोधी, लालची

14.) मूर्ख व्यक्ति जिस डाल पर बैठा था, उसे ही काट रहा था।

(क) गुणवाचक (ख) संख्यावाचक (ग) परिमाणवाचक (घ) सार्वनामिक

15.) उपसर्ग शब्दों के ----- लगकर नये शब्दों का निर्माण करते हैं।

(क) पहले (ख) बाद में (ग) बीच में (घ) साथ

16.) "दूर" उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में होता है।

(क) दूर (ख) बुरा (ग) अच्छा (घ) विशेष

17.) "ज्ञान" में उचित उपसर्ग लगेगा –

(क) प्र (ख) अति (ग) बे (घ) अ

18.) "गायक" में मूल शब्द और प्रत्यय हैं-

(क) गाय+क (ख) गाय+अक (ग) गे+अक (घ) गा+यक

19.) प्रत्यय मूल रूप से ----- होते हैं।

(क)शब्द

(ख) शब्दांश

(ग) पद्यांश

(घ) वाक्यांश

20.) "अंगूठा दिखाना " का अर्थ है –

(क)डराना

(ख) मज़ाक उडाना

(ग) इशारा करना

(घ) मना करना